



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

18 श्रावण, 1940 (श०)

संख्या- 773 राँची, गुरुवार

9 अगस्त, 2018 (ई०)

परिवहन विभाग

अधिसूचना

9 अगस्त, 2018

संख्या- परि० आ०- 350/2015/682-- मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 67 के तहत राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बस यात्रियों की यात्रा को आरामदेह एवं सुविधायुक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य के जिलों के मध्य वातानुकूलित डीलक्स वाहनों के संचालन निम्न बिन्दुओं के आधार पर किए जाने का निर्णय लिया जाता है :-

1. संचालित किए जाने वाली बस 2 x 2 पुश बैक, वातानुकूलित सुपर डीलक्स होगी, जिसकी बैठान क्षमता 35 से 46 होगी एवं जिसके खिड़की की शीशा सील्ड होगा ।
2. पूर्व में परिचालित बस जो कंडिका 1 की शर्तों को पूर्ण करती है, उसका इस सेवा के अन्तर्गत अपने पूर्व निर्गत समय-सारिणी के साथ परिचालन किया जा सकता है परंतु उसको पूर्व निर्गत परमिट को प्रत्यार्पित कर नया परमिट लेना होगा, समय-सारिणी पूर्ववत् रहेगा । सरकारी बस स्टैंड होने की स्थिति में सरकारी बस स्टैंड से संचालन किया जाएगा । सरकारी बस स्टैंड न होने की स्थिति में सामान्य बस स्टैंड/स्थानीय व्यवस्था के तहत इन बसों का परिचालन किया जाएगा ।

3. बॉल्वो एवं मर्सिडिज बसों के लिए किसी टाईमिंग पर कोई आपति मान्य नहीं होगी ।
4. इस सेवान्तर्गत परिचालित होने वाली बस नयी होनी आवश्यक होगी एवं निबंधन से 7 वर्ष के अन्दर बसों का प्रतिस्थापन करना होगा ।
5. इस सेवान्तर्गत परिचालित होने वाली बसों के लिए निर्धारित बस डिपों से वाहनों के आने जाने के लिए **Route** का निर्धारण किया जाएगा ।
6. इस सेवान्तर्गत जिस **R.T.A** के क्षेत्र में मार्ग की अधिकतम दूरी होगी, वहीं से संबंधित परमिट का निर्गमन होगा ।
7. इस सेवान्तर्गत परिचालित होने वाली सभी बसों का रंग सफेद होगा जिसके दोनों ओर **Navy Blue** रंग से “द्रुतगामी वातानुकूलित डीलक्स बस सेवा” लिखा होगा ।
8. बस चालक की पोशाक सफेद एवं उसके सहायक की पोशाक **Dark Blue** होगा ।
9. इस सेवान्तर्गत टिकट की बुकिंग **Online** किए जाने की व्यवस्था परमिटधारियों द्वारा की जाएगी ।
10. बस के सामने **Electronic Board** से मार्ग का नाम एवं समय **Display** करना होगा ।
11. इस सेवा से राज्य के एक जिला मुख्यालय को दूसरे जिला मुख्यालयों से जोड़ा जाएगा ।

राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेन्द्र हेमरोम

उप सचिव

परिवहन विभाग

झारखण्ड, राँची।
